



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 भाद्र 1933 (श0)

(सं0 पटना 545) पटना, मंगलवार, 20 सितम्बर 2011

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार  
बैरक संख्या—11, पुराना सचिवालय, पटना—800015

अधिसूचना  
20 सितम्बर 2011

सं0 नि०प्रा०/नि० 1-01/2011/8997—चूँकि, सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 3120, दिनांक 08 जुलाई 2011 एवं 3184 दिनांक 12 जुलाई 2011 द्वारा राज्य में अवस्थित प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराने का निर्णय बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को संसूचित किया गया है एवं वर्तमान में ऐसी समितियों की संख्या 378 है,

और, प्रत्येक मत्स्यजीवी प्रखंड सहयोग समिति में 1 (एक) अध्यक्ष, 1 (एक) मंत्री/ कोषाध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी कमिटी के 11 (ग्यारह) सदस्यों का निर्वाचन कराया जाना है,

और, चूँकि राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने इन समितियों का निर्वाचन विभिन्न चरणों में पूरा कराने का निर्णय लिया है,

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद्वारा तत्काल प्रथम चरण में परिशिष्ट-1 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार परिशिष्ट-2 में अंकित कुल 197 प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के अध्यक्ष, मंत्री/ कोषाध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु, सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 21 अक्टूबर 2011 (शुक्रवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन अपने-अपने मत्स्यजीवी सहयोग समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें।

संबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 23 सितम्बर 2011 को प्राधिकार के पत्रांक 8807, दिनांक 11 अगस्त 2011 के साथ संलग्न प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-3) में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

मतदान का समय सुबह 7.00 बजे से शाम 3.00 बजे तक होगा। यह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सं०) के विवेक पर छोड़ा जाता है कि मतगणना दिनांक 21 अक्टूबर 2011 को मतदान समाप्ति के पश्चात् उसी दिन सुविधानुसार अपराह्न 4-5 बजे से शुरू किया जाय या दूसरे दिन दिनांक 22 अक्टूबर 2011 को सुबह 8.00 बजे से शुरू की जाय। दिनांक 21 अक्टूबर 2011 को मतगणना कराने पर मतदत्त मतपेटियों को सीधे मतगणना केन्द्र पर लाया जायेगा और कोई वज्रगृह बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु दूसरे दिन अर्थात् 22 अक्टूबर 2011 को मतगणना कराये जाने की स्थिति में वज्रगृह की स्थापना की जायेगी तथा वज्रगृह में मतदत्त मतपेटियों को रखने, वज्रगृह को सील करने तथा दूसरे दिन वज्रगृह को खोलकर मतपेटियों को मतगणना केन्द्र पर ले जाने के समय की सूचना अनिवार्य रूप से सभी अभ्यर्थियों को लिखित रूप में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी।

आदेश से,  
एन0 एस0 माधवन,  
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

### परिशिष्ट-1

#### बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन-2011 प्रथम चरण के निर्वाचन कार्यक्रम

- |                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन | : | 23.09.2011 (शुक्रवार)                               |
| 2. नामांकन देने की तिथि           | : | 10-10-2011 (सोमवार)                                 |
| 3. संवीक्षा की तिथि               | : | 11-10-2011 (मंगलवार)                                |
| 4. अभ्यर्थिता वापसी की तिथि       | : | 12-10-2011 (बुधवार)                                 |
| 5. मतदान, अगर आवश्यक हो           | : | 21-10-2011 (शुक्रवार)                               |
| 6. मतगणना                         | : | <u>21-10-2011 (शुक्रवार)</u><br>22-10-2011 (शनिवार) |

### परिशिष्ट-2

#### मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन-2011 हेतु प्रथम चरण के प्रखंडों का निर्वाचन

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखंड का नाम
1	पटना	बख्तियारपुर, घोसवरी, खुशरूपुर, पुनपुन, मनेर
2	नालन्दा	अस्थावां, चंडी, हरनौत, नगरनौसा, परवलपुर, सिलाव, एंकगरसराय
3	भोजपुर	बड़हरा, चरपोखरी, जगदीशपुर, पीरो, सहार, संदेश, शाहपुर, तरारी, उदवन्तनगर, आरा
4	रोहतास	अकोढ़ीगोला, दिनारा, काराकट, करगहर, कोचस, नवहट्टा, रोहतास, संझौली, सासाराम, शिवसागर, तिलौथू, नोखा
5	बक्सर	ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव, इटाही, राजपुर, सिमरी
6	कैमुर	भभुआ, भगवानपुर, चैचपुर, दुर्गावती, रामपुर
7	गया	बाराचट्टी, बोधगया, गुरूआ, कोंच, नीमचक बथानी, टेकारी, वजीरगंज, बेलागंज, गया नगर, मानपुर
8	नवादा	हिसुआ, नारदीगंज, रजौली, रोह, वारसलीगंज
9	औरंगाबाद	देव, नवीनगर
10	जहानाबाद	घोसी, काको, मखदुमपुर
11	अरवल	अरवल

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखंड का नाम
12	मुजफ्फरपुर	पारू, औराई
13	पश्चिम चम्पारण	मैनाटांड, नरकटियागंज
14	पूर्वी चम्पारण	मधुबन, केसरिया, पीपरा कोठी, तेतरिया, हरसिद्धी
15	सीतामढ़ी	सुप्पी, पुपरी, डुमरांव, रीगा, सुरसंड, परिहार, सोनवर्षा
16	वैशाली	महनार, राजापाकर
17	सारण	बनियापुर, तरैया, एकमा, छपरा
18	सीवान	आन्दर, दरौंधा, गोरियाकोठी, हसनपुरा, महाराजगंज, गुढ़नी, पचरूखी
19	गोपालगंज	बरौली, गोपालगंज, मांझा, पंचदेवरी, फुलवरिया, सिंघवलिया, थावे
20	दरभंगा	घनश्यामपुर, ताराडीह, बहादुरपुर, हनुमानगर, जाले, दरभंगा, सिंघवाड़ा, कुशेश्वर स्थान,
21	मधुबनी	लौकहा (खुटौना), मधेपुर, लखनौर, बासोपट्टी, बेनीपट्टी, हरलाखी, बाबूबरही, लदनिया, रहिका, पंडौल
22	समस्तीपुर	समस्तीपुर, दलसिंहसराय, बिथान
23	बेगूसराय	वीरपुर, साहेबपुर कमाल, भगवानपुर, डंडारी
24	सहरसा	कहरा, सलखुआ, महिषी
25	मधेपुरा	ग्वालापाड़ा, कुमारखंड, मधेपुरा, मुरलीगंज, पुरैनी, सिंहेश्वर, उदाकिशनगंज, चौसा
26	सुपौल	बसन्तपुर, छातापुर, किशनपुर, निर्मली, सरायगढ़, भपटियाही, त्रिवेणीगंज
27	पूर्णियाँ	भवानीपुर, धमदाहा, जलालगढ़, अमौर, कसबा, कृत्यानन्द नगर, बनमनखी, डगरूआ, पूर्णियाँ पूर्वी
28	अररिया	अररिया, फारबिसगंज, कुर्साकांटा, नरपतगंज, पलासी, रानीगंज, सिकटी, जोकीहाट
29	किशनगंज	बहादुरगंज, दिघल बैंक, किशनगंज, पोठिया, ठाकुरगंज, टेढ़ागाछी, कोचाधामन
30	भागलपुर	सबौर, बिहपुर, पीरपैती, सन्हौला
31	बांका	बांका, बौंसी, चान्दन, फुल्लीडुमर, रजौन, शंभुगंज
32	मुंगेर	जमालपुर, संग्रामपुर, टेटियाम्बर, बरियारपुर
33	जमुई	चकाई, जमुई, झांझा, लक्ष्मीपुर, सोनो
34	खगड़िया	परबत्ता, खगड़िया
35	लखीसराय	बड़हिया, हलसी
36	शेखपुरा	बरबीघा, चेवाड़ा, घाट कुसुम्भा, शेखोपुर सराय, अरियरी, शेखपुरा

आदेश से,  
एन0 एस0 माधवन,  
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

**परिशिष्ट-3****मत्स्यजीवी सहयोग समिति निर्वाचन****प्रपत्र-1****सूचना का प्रपत्र**

जिला ....., प्रखंड.....के मत्स्यजीवी सहयोग समिति .....के अध्यक्ष, मंत्री/कोषाध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है, मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-  
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

**आम सूचना**

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
अध्यक्ष	1 (अनारक्षित)
मंत्री / कोषाध्यक्ष	1 (अनारक्षित)
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	11 (अनारक्षित)

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता  
(स्थान का नाम)

है। नामांकन पत्र दिनांक ..... 11 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।  
(नामांकन पत्र दाखिल की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तक .....बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी।  
(स्थान का नाम)

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न 2 बजे के पूर्व तक .....पर  
(स्थान का नाम)

दाखिल की जा सकती है। अभ्यर्थिता वापसी का तिथि एवं समय के बीत जाने के तुरंत बाद प्रतीक का विधिमाम्य रूप से नामांकित सभी अभ्यर्थियों को प्राधिकार के निदेश के आलोक में निर्वाचन प्रतीक चिह्न का आवंटन भी किया जायेगा।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को.....बजे पूर्वाह्न से.....बजे अपराह्न तक होगा।

(vii) मतगणना दिनांक.....को .....बजे से.....पर की जायेगी।  
(स्थान का नाम)

स्थान-  
तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश से,  
एन0 एस0 माधवन,  
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 545-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>